

SUMMER HOLIDAY HOME-WORK FOR CLASS IX 2023-24

SUBJECTS	HOLIDAY HOME-WORK
ENGLISH	<p>MAKE A SEPARATE SCRAP BOOK.</p> <p>1. Write the poetic devices used in the poem ' Road not taken ' and 'the wind' along with definitions and example</p> <p>2. Read the novel 'Coolie' by Mulk Raj Anand and write the review of the novel.</p> <p>3. Write about two poets and two authors from uttar pradesh and arunachal pradesh. Paste their photos .</p> <p>4. Write 10 new words with their antonym and synonym.</p> <p>5. Revise for periodic exam 1</p>
HINDI	<p>(1) अनुच्छेद लिखिए (न्यूनतम 100 शब्द) :- (क) परोपकार (ख) प्राकृतिक संसाधन</p> <p>(2) पत्र लिखिए :- (न्यूनतम 100 शब्द) (क) अपने मित्र के कक्षा में प्रथम आने पर बधाई पत्र , (ख) आपके अग्रज का विवाह 12 जून 2023 को होना तय हुआ है, इस अवसर पर आने के लिए अपनी बुआ जी को निमंत्रण पत्र लिखिए। (3) प्रथम आवधिक परीक्षा हेतु कराए गए सम्पूर्ण पाठ्य को दोहराएँ। * उपरोक्त कार्य व्याकरण की कॉपी के रचना वाले भाग में करें।</p>
MATHS	<p>1.All Examples of chap 1(Number system),chap 2(polynomial) and 20 problem sums based on chap 1 and chap 2 in holiday homework register of 150 pages.</p> <p>2.Following four lab manual activities(creative work) on Practcal Notebook (One sided blank) Activities Numbers and topics are mentioned below. A)</p> <p>Activity No 1: To divide line segment into given number of equal parts. B)</p> <p>Activity No 2: Square Roots of Natural Numbers. C)</p> <p>Activity No 3: Use of Geoboard. D)</p> <p>Activity No 5: Sides and Angles of a Triangle</p>
SCIENCE	<p>Physics - 1. Draw a distance time graph to show a truck parked near the garden.</p> <p>2. Draw a velocity time graph to show zero acceleration.</p> <p>3. A driver runs a van from home to school and school to home on the same route. One day while going his speed was 35 km/h and while returning his speed was 20 km/h. Find his average speed.</p> <p>4. Draw speed time graph for above situation.</p> <p>Biology - 1. Read chapter Natrual resources and prepare a brief write up on any two concepts.</p> <p>2. Read contribution of some famous people in environment protection and its conservation.</p> <p>Chemistry - 1. Prepare a ppt on States Of Matter</p> <p>2. Frame 20 MCQs from Chapter Matter & its surroundings.</p>
SOCIAL SCIENCE	<p>1.Make 5 MCQs & 5 one word answer type questions from Chapter 1 of all four books i.e History , Geography,Economics & Democratic Politics.</p> <p>2.Practice Map from chapter 1 History and chapter 1,2 &3 Geography.</p> <p>3.Make a project file on disaster management on any two topics of natural and human made disaster.</p>